

तुरंत रिलीज के लिए

**ब्रैम्पटन आर्थिक संभावनाओं का लाभ लेने के लिए निष्पक्ष और समय पर संघीय और प्रांतीय फंडिंग चाहता है**

**सिटी ने संघीय और प्रांतीय 2020 पूर्व-बजट परामर्शों में सुझाव दिए**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 जनवरी, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, [संघीय \(Federal\)](#) और [प्रांतीय \(Provincial\)](#) सरकारों के 2020 पूर्व-बजट परामर्शों के हिस्से के तौर पर कुछ मुख्य प्राथमिकताओं का समर्थन कर रही है।

आज, मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट – रूबी सहोता (Ruby Sahota), कमल खैरा (Kamal Khara), मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu), रमेश संघा (Ramesh Sangha) और सोनिया सिद्धु (Sonia Sidhu) के साथ हुई मीटिंग के दौरान मेयर पैट्रिक ब्राउन ने सिटी के संघीय बजट संबंधी निवेदनों के विवरण साझा किए। उन्होंने ट्रांज़िट के लिए लंबी-अवधि की फंडिंग के महत्व और तेजी से होने वाले आबादी की वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए ब्रैम्पटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत बनाने की आवश्यकता बारे विचारविमर्श किया। रिवरवाक (Riverwalk) जैसी स्थिर पहलकदमियों और जलवायु संबंधी बदलावों और प्रभाव में इसकी भूमिका के महत्व पर भी चर्चा की गई।

कल (24 जनवरी) की मीटिंग में मेयर पैट्रिक ब्राउन द्वारा ओनटैरियो प्रीमियर डग फोर्ड (Ontario Premier Doug Ford) ने [प्रोविंशियल सबमिशन डॉक्यूमेंट \(Provincial submission document\)](#) पेश किया गया था। उन्होंने ब्रैम्पटन के अत्यंत आवश्यक मामलों के बारे में चर्चा की, जैसे स्वास्थ्य देखभाल में बहुत समय से कम फंडिंग प्राप्त होना, पील मैमोरियल अस्पताल (Peel Memorial Hospital) के विस्तार और तीसरी स्वास्थ्य देखभाल फेसिलिटी के सहयोग के लिए तुरंत फंडिंग की आवश्यकता। मेयर ब्राउन ने भी पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) की सामुदायिक सुरक्षा और अपराध की रोकथाम संबंधी पहलकदमियों के लिए \$20.5 मिलियन की फंडिंग की घोषणा का भी स्वागत किया। मीटिंग में गन संबंधी अपराध से निपटने के लिए हाईवेज 410 और 403 पर सी.सी.टी.वी. (CCTV) कैमरों की आवश्यकता और [ब्रैम्पटन में प्रांतीय ऑफेंसिज एक्ट \(पी.ओ.ए.\) कोर्ट हाउस में जुडिशियल संसाधनों की कमी \(shortage of judicial resources at the Provincial Offences Act \(POA\) court house in Brampton\)](#) के बारे में भी चर्चा की गई।

मेयर ने कहा कि काउंसिल और सिटी के अधिकारियों को, सिटी की संघीय प्राथमिकताओं, मौजूदा बजट संबंधी निवेदनों और नई फंडिंग तक पहुंच के लिए मिलने वाले अवसरों के बारे में संघीय सरकार से नियमित अपडेट्स मिलते रहने चाहिए।

नीचे दोनों पूर्व-बजट प्रस्तुतियों के संक्षेप तथ्य दिए गए हैं। पूरे दस्तावेज़ [सिटी की वेबसाइट \(City's website\)](#) पर उपलब्ध हैं।

- एक निष्पक्ष फंडिंग वितरण मॉडल, जो तेजी से बढ़ती ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) और ज़ूम (Züm) ट्रांज़िट प्रणालियों के समक्ष आने वाले दबावों को पहचान कर उन्हें समाप्त करता है
- लगातार एनवायरनमेंट असेसमेंट (Environmental Assessment) पर काम करते हुए, हुरोन्टैरियो-मेन स्ट्रीट एल.आर.टी. (Hurontario-Main St. LRT) से डाउनटाउन ब्रैम्पटन गो (Downtown Brampton GO) स्टेशन का विस्तार करने के लिए फंडिंग प्रतिबद्धता
- रिवरवाक के लिए सहयोग। यह एक परिवर्तनशील प्रोजेक्ट है, जो डाउनटाउन ब्रैम्पटन में आर्थिक संभावना का फायदा लेगा। इससे कैनेडा की अर्थव्यवस्था में \$256 मिलियन से अधिक जुड़ने और 2,200 फुल-टाइम नौकरियां पैदा होने की संभावना है
- ब्रैम्पटन में “अस्पताल के हॉलवे में इलाज” को समाप्त करने, पील मैमोरियल सेंटर (Peel Memorial Centre) के फेज 2 का विस्तार करने और ब्रैम्पटन में तीसरे अस्पताल के लिए फंड करने के लिए तत्काल, उचित स्वास्थ्य देखभाल फंडिंग
- लेजिस्लेट ब्रैम्पटनयू (ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी को स्थापित करना) की मौजूदगी और अन्य पोस्ट सेकंडरी अवसर पैदा करने में मदद करना। मेनस्ट्रीट रिसर्च (Mainstreet Research) सर्वेक्षण दर्शाता है कि ब्रैम्पटन के 83% निवासी, एक ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी (Brampton University) चाहते हैं।
- सामुदायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण के लिए सरकार के सभी विभागों में ब्रैम्पटन-विशेष डेटे को साझा करने में वृद्धि करना

हवाले

“इस नए दशक में, शहरों की परिभाषा इस आधार पर दी जाएगी कि हम किस तरह से स्थिर रूप से वृद्धि को कायम रख सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं और लोगों और सामान की प्रभावी रूप से स्थानांतरण कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर निष्पक्ष, उचित फंडिंग को सुरक्षित करने में हमारे संघीय और प्रांतीय भागीदारों के साथ काम करना आवश्यक है, जो प्रोजेक्ट ओनटैरियो और क्वेबेक के लिए, सिटी की आर्थिक संभावना का फायदा लेंगे। ब्रैम्पटन, सामुदायिक सुरक्षा में हाल ही के निवेशों के लिए आभारी है, जो दर्शाता है कि जारी और संयुक्त हिमायती प्रयास हमारे समुदाय की प्राथमिकताओं को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं। हम व्यवसाय संबंधी अवसरों, पोस्ट सेकंडरी शिक्षा, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल और सभी के लिए सुलभता तैयार करके हमारे समुदाय का निर्माण करने के लिए सरकार के दोनों विभागों से भी लगातार सहयोग की अपेक्षा करते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“प्रत्येक वर्ष, हजारों लोग ब्रैम्पटन को रहने, काम करने और खेलने के लिए अपना चुनिंदा स्थान बनाते हैं। हमारा विकास एक रोचक कहानी है, जिसे हम संघीय और प्रांतीय सरकारों के सहयोग से और मजबूत बनाना चाहते हैं। हम ऐसी और सहयोगात्मक पहलकदमियों में लगातार हमारे सरकारी भागीदारों को शामिल करते रहेंगे, जो हमारी टरम ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज और ब्रैम्पटन 2040 विजन के अनुकूल हैं”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)